

AMRIT INDIA LIMITED

(Formerly known as Aquarius Fincap & Credits Private Limited)

Regd Off: 564, A-1, P. NO: 2/59, AF/F, Bhim Gali, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110032

Email Id: pankaj_saxena1@hotmail.com; aquariusfincap@gmail.com;

Mobile: +91-8920674883

CIN: U65921DL1996PLC078712

Date: 15th February, 2025

To,

**The Manager- Compliance Department
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West)
Mumbai – 400070**

SYMBOL: AMRITINDIA (AMRIT INDIA LIMITED) EQ - ISIN – INE00RY01013.

Subject: Submission of Extract of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on December 31st, 2024.

Dear Sir/Madam,

With reference to the above captioned subject, please find herewith enclosed copies of Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on December 31st, 2024. Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The Financial Results was published in one English Newspaper “**English Daily Open Search**” and in one Hindi Newspaper “**Hindi Daily Open Search**” in the language of the region where the registered office situated. The web link for the direct access to the abovementioned newspaper advertisement is <https://www.opensearch.co.in/33075/> and <https://www.opensearch.co.in/33072/>. You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You.

**For and on behalf of Board of Directors
AMRIT INDIA LIMITED**

**PANKAJ SAXENA
(Director)
DIN: 08162590**

Encl: As above

Tata Motors eye 4 lakh electric vehicle charge points across India by 2027

NEW DELHI/AGENCY

Tata Motors on Thursday said it has set a target of 4 lakh electric vehicle charging points across the country by 2027. Under the "Open Collaboration 2.0" initiative, Tata Motors's plans to instal 30,000 public charging points in partnerships with charge point operators (CPOs) and oil marketing companies (OMCs). Additionally, the initiative will see the installation of 500 TATA.ev mega chargers for electric vehicles of all brands, and superfast chargers with four charging bays. "To enable the exponential growth of EVs in India, we've launched 'Open Collaboration 2.0', aiming to

expand the charging network to over 400,000 points in the next two years, in partnership with leading CPOs," said Shailesh Chandra, managing director of Tata Motors Passenger Vehicles and Tata Passenger Electric Mobility. "This initiative will enhance the speed, reliability, and user experience of charging, while improving the viability of CPOs and facilitating their growth," Chandra said. Through its 'Open Collaboration' framework, launched in 2023, Tata Motors has been partnering CPOs and OMCs to expand charging infrastructure across key hotspots, particularly along highways to facilitate seamless long-



distance mobility. "TATA.ev's cumulative impact includes the installation of over 1.5 lakh private or home chargers, 2,500 community chargers, and 750 chargers at Tata dealerships across more than 200 cities," the company said in a press release. "Through 'Open Collaboration 2.0', TATA.ev is accelerating India's EV charging ecosystem with an ambitious goal to more than double the number of charging points

Additionally, the initiative will see the installation of 500 TATA.ev mega chargers for electric vehicles of all brands, and superfast chargers with four charging bays

to over 400,000 within the next two years." The TATA.ev mega chargers will be open to all brands' electric vehicles, while TATA.ev customers will get priority access and tariff benefits. Users can easily locate, access and pay for charging at these mega chargers through Tata Motors's IRA.ev app, eliminating the need for multiple charging

apps. The chargers themselves will be operated by partner CPOs. Maruti Suzuki, which recently unveiled its first electric vehicle, the e-Vitara, is also focusing on charging infrastructure.

The automaker has stated its goal to have a charging point every 5 to 10 kilometers in the top 100 cities. About 99,165 electric cars were sold in India in 2024, recording 20 per cent year-on-year growth, according to the Federation of Automobile Dealers Associations (Fada). Passenger vehicle dispatches from factories to dealers increased 1.6 per cent in January at 3,99,386 units, industry body SIAM said.

JioStar launches new streaming platform JioHotstar, merges JioCinema and Disney+ Hotstar

NEW DELHI/AGENCY

JioStar, the newly formed joint venture by the merger of Viacom18 and Star India, on Friday announced the launch of JioHotstar by bringing together JioCinema and Disney+



Hotstar streaming platforms. With close to 3 lakh hours of entertainment, live sports coverage, and more than 50 crore users, JioHotstar provides compelling subscription plans tailored to diverse audience needs, starting at Rs 149, the company said in a statement. Existing JioCinema

and Disney+ Hotstar subscribers will be able to seamlessly transition and set up their JioHotstar subscriptions, it added. "At the core of JioHotstar is a powerful vision -- to make premium entertainment truly accessible to all Indians. Our promise of 'Infinite Possibilities' ensures that entertainment is no longer a privilege, but a shared experience for all," JioStar CEO -? Digital, Kiran Mani said. Mani further said, "By integrating AI-driven recommendations and offering streaming in over 19 languages, we are personalising content like never before." JioHotstar will offer the best of Hollywood, with Disney, NBCUniversal Peacock, Warner Bros. Discovery HBO, and Paramount - all on the same platform, the company said.

Sensex climbs 344 points to 76,483 in early trade, Nifty up 102 points to 23,133

NEW DELHI/AGENCY

Equity benchmark indices Sensex and Nifty began the trade on an optimistic note on Friday after India and the US agreed to conclude the first phase of a mutually beneficial ambitious trade pact by this year and set a target of USD 500 billion in annual bilateral trade by 2030. A rally in the US markets overnight also drove the domestic equities higher. The 30-share BSE benchmark Sensex climbed 344.09 points to 76,483.06 in early trade. The NSE Nifty went up by 102.3 points to 23,133.70.

From the 30-share blue-chip pack, ICICI Bank, HCL Tech, Infosys, ITC, Tech Mahindra and Maruti were among the biggest gainers. Adani Ports, Zomato, Sun Pharma and NTPC were among the laggards. In Asian markets, Seoul



Shanghai and Hong Kong traded higher while Tokyo quoted lower.

US markets ended higher on Thursday. In an ambitious move, India and the US agreed to conclude the first phase of a mutually beneficial ambitious trade pact by this year and set a target of USD 500 billion in annual bilateral trade by 2030 even as President Donald Trump asserted that Washington will not spare New Delhi from reciprocal tariffs. Issues relating to trade and tariffs figured

extensively in a meeting between Prime Minister Narendra Modi and Trump that took place hours after the US President announced a new reciprocal tariff policy for all the trading partners of the US. At a joint media briefing with Modi, Trump announced that he and Modi agreed on a deal that would facilitate India to import more US oil and gas to bring down Washington's trade deficit with New Delhi. "Early indications from the Modi-

Trump talks are positive from the market perspective. India's willingness to buy more oil & gas from the US can help reduce the trade deficit with the US. Even though Trump is unlikely to back down on reciprocal tariffs, India is treated as a friendly country and the bonhomie between the two leaders augurs well for India," V K Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Financial Services, said. Foreign Institutional Investors (FIIs) offloaded equities worth Rs 2,789.91 crore on Thursday, according to exchange data. "The oversold market can bounce back in the near-term but a sustained rally is unlikely since the FIIs continue to be on sell mode. Only a decline in dollar and US bond yields will turn the FIIs into buyers. So watch out for this space," Vijayakumar added.

Wholesale price inflation eases to 2.31% in January as against 2.37%

NEW DELHI/AGENCY

Wholesale price inflation moderated marginally to 2.31 per cent in January due to the decline in prices of food items especially vegetables, government data released on Friday showed. The Wholesale Price Index (WPI) based inflation was 2.37 per cent in December 2024. It was 0.33 per cent in January 2024. As per the data, inflation in food items eased to 5.88 per cent in January, as against 8.47 per cent in December 2024. Inflation in vegetables came down significantly to 8.35 per cent, as against 28.65

per cent in December 2024. In the eggs, meat and fish category inflation declined to 3.56 per cent as against 5.43 per cent last month. Within vegetables, tomato prices declined to 18.9 per cent while inflation in potato continued to be high at 74.28 per cent, and in onion it spiked to 28.33 per cent in January. The fuel and power category witnessed a deflation of 2.78 per cent in January, against a deflation of 3.79 per cent in December. In manufactured items, inflation was 2.51 per cent as compared to 2.14 per cent in December 2024. Retail inflation data released



on Wednesday showed that Consumer Price Index (CPI) based inflation eased to a 5-month low of 4.31 per cent in January on easing prices of food items. ICRA Senior

Economist Rahul Agrawal said, "We project the WPI to average at 2.4 per cent in FY2025 and inch up further to 3 per cent in FY2026, despite expectations of a

cooling in the prints for the food segment". According to CARE Ratings Chief Economist Rajani Sinha, food prices are likely to ease in the coming months driven by seasonal correction in prices. However, there are headwinds as far as global commodity prices are concerned. Their prices have been hardening amid growing uncertainty around the impact of the US protectionist trade policies. This would exert an upward pressure on the WPI non-food component. Going ahead, Sinha said it is crucial to monitor geopolitical developments and global

trade uncertainties closely, as these could significantly influence global commodity markets and supply chains. Besides, rupee depreciation would make imports costlier raising the risk of imported inflation.

The rupee has depreciated about 4 per cent against the US dollar so far in the second half of the current financial year. Earlier this month, RBI slashed the policy rate by 25 basis points to 6.25 per cent in a bid to promote consumption. The rate cut happened after a gap of 5 years. RBI had last reduced the rate in May 2022.

Briefs News

TikTok is back on the Apple and Google app stores in US as Donald Trump delays ban

WASHINGTON (AGENCY) TikTok has returned to the app stores of Apple and Google in the US, after President Donald Trump delayed the enforcement of a TikTok ban. TikTok, which is operated by Chinese technology firm ByteDance, was removed from Apple and Google's app stores on January 18 to comply with a law that requires ByteDance to divest the app or be banned in the US. The popular social media app, which has over 170 million American users, previously suspended its services in the US for a day before restoring service following assurances from Trump that he would postpone banning the app. The TikTok service suspension briefly prompted thousands of users to migrate to RedNote, a Chinese social media app, while calling themselves "TikTok refugees." The TikTok app became available to download again in the US Apple App store and Google Play store after nearly a month. On Trump's first day in office, he signed an executive order to extend the enforcement of a ban on TikTok to April 5.

Bengal government monitoring poultry imports amid Andhra bird flu outbreak

NEW DELHI (AGENCY) The West Bengal government is keeping a vigil on poultry imports in the wake of the bird flu outbreak in Andhra Pradesh, a minister said on Friday. Bengal Animal Resources Development Minister Swapan Debnath said the department is aware of the situation. "We are aware of the situation and keeping a strict vigil," the minister.

He, however, did not announce a ban on imports of poultry items from the southern state. Meanwhile, there are growing concerns over the potential impact of the outbreak of avian influenza in Andhra Pradesh on West Bengal's poultry sector. Notably, West Bengal sources eggs from Andhra Pradesh. The West Bengal Poultry Federation assured that stringent surveillance has been in place since November last year to prevent the virus from entering the state. The outbreak has also started affecting poultry sales in Bengal, with markets witnessing fewer buyers. As a result, chicken prices have dropped to Rs 200 per kg, down from Rs 220 just a few days ago. Despite the decline in prices, demand remains weak as uncertainty over the virus persists, traders said. According to a doctor, bird flu is common during this period, but the virus generally does not transmit to humans.

Chevron to invest \$1 billion in engineering and innovation centre

NEW DELHI (AGENCY) Energy giant Chevron is setting up a \$1-billion engineering and innovation centre in India, its second biggest in the world, as it looks to tap the country's engineering and technology talent to support its global operations and projects, its India head Akshay Sahni said. The Chevron Engineering and Innovation Excellence Center (ENGINE) in Bengaluru is not a back office but a centre that will do works ranging from understanding geology for oil and gas production and carbon storage to developing digital twins for oil refineries and advanced process monitoring to improve supply reliability, he said on the sidelines of the India Energy Week here.

It will be the company's largest centre outside of the US. "ENGINE is a state-of-the-art technology hub to support Chevron's global projects and operations. This is where we plan to build a diverse and inclusive workforce that will deliver technology solutions to support affordable, reliable and ever-cleaner energy for a growing world," he said. It's very well aligned with India's vision as well to have affordable energy supplies and the people at the ENGINE will work on higher-end technology solutions to support. This vision, Chevron will lay off 15 per cent to 20 per cent of its global workforce, aiming to cut \$2-3 billion in structural costs by the end of next year. The energy giant employs more than 40,000 people globally. Chevron is streamlining operations to boost efficiency and long-term competitiveness. This includes optimising its portfolio, leveraging technology, and expanding global work centres.

AMRIT INDIA LIMITED							
(Formerly known as Aquarius Fincap & Credits Private Limited)							
Regd Off: 564, A-1, P. NO: 2/59, AF/F, Bhim Gali, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110032							
Email Id: aquariusfincap@gmail.com; Mobile: +91-8920674883							
CIN: U65921DL1996PLC078712							
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS YEAR ENDED ON 31ST DECEMBER 2024 - IND-AS COMPLIANT (NON NBFC)							
(IN LACS EXCEPT EPS)							
S.N	Particulars	Standalone			Consolidated		
		CURRENT QUARTER	CURRENT NINE MONTHS	YEAR ENDED	CURRENT QUARTER	CURRENT NINE MONTHS	YEAR ENDED
		01.10.2024 to 31.12.2024	01.04.2024 to 31.12.2024	01.04.2023 to 31.03.2024	01.10.2024 to 31.12.2024	01.04.2024 to 31.12.2024	01.04.2023 to 31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from operation	0.00	8.540	0.00	-	8.540	0.00
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exception items	(1.260)	(11.702)	0.00	(1.260)	(11.702)	0.00
3	Net Profit / Loss for the period before tax (after exception items)	(14.198)	(44.097)	0.00	(14.198)	(44.097)	0.00
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exception items)	(14.198)	(44.097)	0.00	(2.205)	(314.095)	0.00
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period (comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(14.198)	(44.097)	0.00	(2.205)	(314.095)	0.00
6	Paid up equity share capital	367.947	367.947	0.00	367.947	367.947	0.00
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) not Annulised-Basic & Diluted	(0.386)	(1.198)	#DIV/0!	(0.060)	(8.536)	#DIV/0!

Note
1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 were reviewed by the Audit Committee at the meeting and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 14.02.2025
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015.

For and on behalf of Board of directors of AMRIT INDIA LIMITED

PANKAJ SAXENA
(Director)
DIN : 08162590

Date : 14-02-2025
Place : New Delhi

SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED					
CIN: L65993DL1984PLC019141					
Regd. Off: 47/18, RAJENDRA PLACE METRO STATION NEW DELHI-110060					
Email Id: shriniwas.limited@gmail.com, Website: www.shriniwasleasingfinance.in					
Ph: +91-9891709895, 9891095232, Tel: +91-11-47476071					
Unaudited Financial Result for the Quarter and Nine Months Year Ended 31.12.2024					
(IN LACS EXCEPT EPS)					
S.N	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended	Year Ended
		CURRENT QUARTER	CORRESPONDING QUARTER	CURRENT NINE MONTHS	YEAR TO DATE FIGURES FOR PREVIOUS YEAR
		01.10.2024 to 31.12.2024	01.10.2023 to 31.12.2023	01.04.2024 to 31.12.2024	01.04.2023 to 31.03.2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from operation	13.694	8.669	42.391	47.275
2	Net Profit / Loss for the period before tax and exception items	(9.363)	2.839	0.075	(28.691)
3	Net Profit / Loss for the period before tax (after exception items)	(9.363)	2.839	0.075	(135.825)
4	Net Profit / Loss for the period after tax (after exception items)	(9.363)	2.839	0.075	(137.713)
5	Total [Comprehensive income/ loss for the period (comprising profit/ loss for the period (after tax) and other comprehensive income/ loss (after tax)]	(9.363)	2.839	0.075	(137.713)
6	Paid up equity share capital	399.700	399.700	399.700	399.700
7	Earning per share after exception item Basic & Diluted	(0.234)	0.071	0.002	(3.445)

Note
1. The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2024 were reviewed by the Audit Committee at the meeting and approved by the Board of Directors and taken on record at the meeting held on 14.02.2025
2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial result filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and disclosure requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly financial result are available on the company's website www.shriniwasleasingfinance.com

For and on behalf of Board of directors of SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED

RAJNI TANWAR
(Managing Director)
DIN : 08201251

Date : 14-02-2025
Place : New Delhi

